



वृषभ राशि
वाले

वर्ष 2018 में

क्या उपाय करें...

क्या

न

करें...



क्या न करें वर्ष 2018 में

- * आपका अहंकार आपको डुबो देगा ।
- * इस वर्ष आपको दूसरों को बोलने का मौका देना पड़ेगा और अपने को सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा ।
- * दूसरों के पीछे पड़ने की आदत आपके लिए हानि कारक रहेगी ।

क्या उपाय करें वर्ष 2018 में

स्वास्थ्य में सुधार के लिए

- * हर रोज नियमित सुबह-शाम घी का दीपक जलाकर महा मृत्युंजय मंत्र का जाप करें ।
- * गाय को हरा चारा या श्रद्धानुसार ज्वार अपने हाथ से खिलाएं ।

पारिवारिक सुख-शांति व बाधा निवारण के लिए

- * शनि कवच का पाठ करें।
- * छायादार वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करें।
- * प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें।

आर्थिक सुदृढ़ता के लिए

- * दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें व तुला दान करें।
- * 400 ग्राम तिल और बूरा मिलाकर हर शनिवार को चींटियों को भोजन दें।

संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 7 मुखी सात दाने, 13 मुखी चार दाना रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ महुर्त में धारण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें।